

Motisons Jewellers Limited 270, 71, 72, 76, Johan Bazar, Jaipur-302003 | Tel.: +91-0141-4150000

270, 71, 72, 76, Johari Bazar, Jaipur-302003 | Tel.: +91-0141-4150000 SB-110 Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015 | Tel.:+91-0141-4160000 F-33, Gautam Marg, Vaishali Nagar, Jaipur-302021 | Tel.:+91-0141-3510000 Email: motisons@gmail.com • Website: www.motisonsjewellers.com



CIN-L36911RJ2011PLC035122

Date: 20.09.2024

BSE Limited

Dept of Corporate Services Phirozee JeejeebhoAy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 (Maharashtra)

Scrip Code :544053

National Stock Exchange of India Limited

The Listing Department
Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla
Complex, Bandra (East),
Mumbai- 400 051(Maharashtra)

Symbol: MOTISONS

Sub: <u>Intimation regarding completion of dispatch of Notice of Postal Ballot and submission of Newspaper Advertisement made in this regard.</u>

Dear Sir/Ma'am,

We are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement relating to the "Notice of Postal Ballot & E-voting information", as published in Financial Express (English Edition) and Business Remedies (Hindi Edition) newspapers dated September 20, 2024, in compliance with the provisions of Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The above information is also available on the Company's website www.motisonsjewellers.com.

We request you to kindly take the above information on record and oblige.

Thanking you, Yours Faithfully,

For Motisons Jewellers Limited

Bhavesh Surolia Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: A64329 FINANCIAL EXPRESS

RELIANCE

Infrastructure **Notice of Postal Ballot**

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 or the Companies Act, 2013 (the 'Act'), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules'), as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the dispatch of Notice of postal ballot along with the explanatory statement thereto ('Postal Ballot Notice') with respect to the specia businesses mentioned therein and the Postal Ballot Form to the Members of the Company has been completed on Thursday, September 19, 2024.

instructions was sent to all the members, whose names appear in the Register of Members / list of beneficial owners as received from National Securities Depository Limited ("NSDL / Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on Friday, September 13, 2024 ('Cut-Off Date'), for seeking their approval through Postal Ballot. E-voting facility is provided to the members to enable them to cast their votes

The Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form containing the process an

electronically. KFin Technologies Limited ('Kfintech'), the Registrar and Transfer Agent of the Company has been engaged by the Board of Directors of the Company ('Board') for providing the e-voting platform

Members whose email address is not registered can register the same in the following manner: . Members holding share(s) in physical mode can register their e-mail ID on the Company's website at https://www.rinfra.com/web/rinfra/shareholder-registration by providing the requisite details of their holdings and documents for registering their email address; and

 Members holding share(s) in electronic mode are requested to register / update their email address with their respective Depository Participants "DPs" for receiving all communications from the Company electronically.

Members whose names appear in the register of members of the Company or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-Off Date, i.e. Friday, September 13, 2024 only shall be entitled to cast their votes by way of Postal Ballot or e-voting. Members who have not received postal ballot form may apply to the Company and obtain a duplicate form. A person who was not a Member of the Company on Cut-Of

Date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only. E-voting for Postal Ballot shall commence at 10.00 A.M. (IST) on Friday, September 20, 202 and close at 5.00 P.M. (IST) on Saturday, October 19, 2024 and e-voting module shall be disabled by KFintech thereafter. In case of voting through physical mode, postal ballot form received after 5:00 PM (IST) on Saturday, October 19, 2024 shall be considered as invalid In case of non-receipt of the Postal Ballot Form or for request for a duplicate Postal Ballo Form or for any query or grievances pertaining to voting by Postal Ballot, including the voting process can be addressed to Shri Praveen Chaturvedi, Vice President, KFi Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Hyderabad, Telangana - 500 032 or on Toll free no: 1800 309 4001 or email: evoting@kfintech.com

Members may also write to the Company Secretary, at the Registered Office address the Company or through email at rinfra.investor@relianceada.com.

Shri Anil Lohia Partner or in his absence Shri Khushit Jain, Partner, M/s. Dayal & Lohia Chartered Accountants have been appointed as the Scrutinizer for conducting the Posta Ballot voting process in a fair and transparent manner.

The results of the Postal Ballot and e-voting will be declared on or before 5.00 P.M. (IST) on or before Monday, October 21, 2024 at the Registered Office of the Company by placing it alongwith the report of the scrutinizer on its notice board, Company's website www.rinfra.com and shall also be communicated to the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed.

The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form are available on the Company's website: www.rinfra.com, KFintech's website: www.evoting.kfintech.com., websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively

For Reliance Infrastructure Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Paresh Rathoo

Date: September 19, 2024 Reliance Infrastructure Limited

Place : Mumbai

CIN: L75100MH1929PLC001530

Regd. Office: Reliance Centre, Ground Floor,

remote e-voting by the Members of the Company.

19, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001

Tel.: +91 22 4303 1000, Fax: +91 22 4303 4662 E-mail: rinfra.investor@relianceada.com, Website: www.rinfra.com

MOTISONS JEWELLERS LIMITED

Registered Office: 270, 271, 272 & 76, John Bazar, Jaipur - 302003 Corporate Office: SB-110, Motisons Tower, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur - 302015 F-33, Gautam Marg, Vaishali Nagar, Jaipur - 302021 Tel No: +91-0141-4160000 | Email: motisons@gmail.com Website: www.motisonsjewellers.com | CIN: L36911RJ2011PLC035122

NOTICE OF POSTAL BALLOT [Pursuant to Section 108 and 110 of The Companies Act, 2013, read with rule

20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Members are hereby informed that pursuant to provisions of Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read together with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings ("SS-2") and the relaxations and clarifications issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA) vide General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and pursuant to other applicable laws and regulations, the resolution(s) as set out in the Notice of Postal Ballot dated 19th September, 2024 are proposed to be passed through postal ballot only through

The Company has completed dispatch of the Notice of Postal Ballot along with the Explanatory Statement on 19th September, 2024 through electronic mode to the members at their e-mail address as registered with the Depository Participants or the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) viz. Link Intime India Private Limited and whose name appear in the Register of Members/ Record of Depositories as on cut-off date i.e. Friday, 13th September, 2024. The said notice of Postal Ballot is also available on the Website of BSE Limited & National Stock Exchange of India Ltd and on the Company's Website www.motisonsjewellers.com , and on the website of Link Intime India Private Limited at https://instavote.linkintime.co.in. A person who is not a member as on cutoff date should treat this Postal Ballot Notice for information purpose only.

The Board of Directors (the "Board") has appointed Mr. Pankaj Kumar Gupta, Proprietor of M/s. Kumar G & Co. (COP No.-7579), Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e- Voting process in a fair and transparent

The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited for the purpose of providing remote e-Voting facility to all its members. The necessary instructions for remote e-Voting has been set out in the Notice dated 19th September, 2024.

In case of shareholders who have not registered their email address, it is likely to state that in terms of the MCA Circulars, the Company will send Postal Ballot Notice in electronic form only and hard copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the shareholders for this Postal Ballot. Accordingly the communication of the assent or dissent of the members would take place through the remote e-voting system only. Therefore, those shareholders who have not yet registered their email address are requested to get their email addresses registered or contact RTA viz. Link Intime India Private Limited on email id rnt.helpdesk@linkintime.co.in. or to the company on email id i.e. complianceofficer@motisons.com.

The voting period, through remote e-voting, will begin on 09:00 A.M. IST on Friday, 20th September, 2024 and ends at 05:00 P.M. IST on Saturday, 19th October, 2024. The evoting module shall be disabled by the Link Intime India Private Limited for e-Voting thereafter. Any voting done by the member beyond the said date will not be valid and shall not be allowed beyond the said date. The voting right of the members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the company as on the cutoff date. Once vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.

Once the Member cast vote on a resolution. Member shall not be allowed to change it Detailed Instructions for remote e-voting are provided in the Notice. Members are

requested to read the instructions carefully as set out in the Notice while expressing their assent or dissent.

Further, members holding shares as on the Cut-off date and who have not received postal ballot notice may apply to the company and obtain a duplicate thereof.

Any Member, holding shares as on the Cut-off date and who may not have received this notice after the date of electronic dispatch, may obtain the Login ID and password by following the instructions as mentioned in the Notice or sending a request to Company's RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. However, if a person is already registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited for remote e-voting, then existing User ID and password can be used to cast their vote as per instructions provided in the

In case you have any queries or issues regarding e-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under help section or write an email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in. or contact the company at telephone no: +91-0141-4160000, E-mail- complianceofficer@motisons.com Contact Person: Bhavesh Surolia, Company Secretary and Compliance Officer.

The results of voting by Postal Ballot will be declared/ announced by the Chairman or any other person authorised by him within the statutory time limit and will also be informed to the Stock Exchanges where the Company's equity shares are listed and shall also be displayed on the Company's website along with the Scrutinizer's Report. By Order of the Board of Directors

Date: 19" September 2024

Place : Jaipur

For Motisons Jewellers Limited Bhavesh Surolia Company Secretary and Compliance Officer M. No.: A64329



SHRIRAM FINANCE LIMITED (Formerly known as SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and public at large that our Firozabad

Agra Branch located at Om Sai Complex, Near M.C. Agarwal Hospital, Kotla Chungi, Firozabad Uttar Pradesh - 283203 will shift to First Floor, Mauja Muhamadpur, Gajmalpur Mausuma, Mohalla Bodh Nagar, Firozabad, Akalabad, Hasanpur, Firozabad, Uttar Pradesh 283203 from 23rd December, 2024. The Customers are requested to contact the new office premises for

REGIONAL BUSINESS HEAD

SHRIRAM

SHRIRAM FINANCE LIMITED

(Formerly known as SHRIRAM

TRANSPORT FINANCE

COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and

public at large that our Beed-

Aurangabad Branch located at Flat

No. 13, Block No. 93, Vijay Complex,

Near Mahaveer Petrol Pump,

Opposite Punyai Lawns, Jalna Road,

Beed, Maharashtra - 431122 will shift

to Second Floor, Kale Complex,

Near Mahavir Petrol Pump, Opposite

Punyai Lawns, Mahalas Jawala,

Beed, Maharashtra - 431122 from

The Customers are requested to

contact the new office premises for

(Please scan the QR Code

to view the DRHP)

REGIONAL BUSINESS HEAD

23rd December, 2024.

their needs.

SHRIRAM FINANCE LIMITED (Formerly known as SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and

SHRIRAM

public at large that our Rajsamand I Branch located at Pagariya Market, Mukhrajee Chowk, Kankroli, Rajsamand, Rajasthan -313324 will shift to First Floor, Devleela Complex, 60 Feet Road, Kankroli, Rajsamand, Rajasthan 313324 from 26th December, 2024. The Customers are requested to contact the new office premises for

REGIONAL BUSINESS HEAD

their needs.

SHRIRAM

SHRIRAM FINANCE LIMITED (Formerly known as SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and public at large that our Solan -Branch located at Jaunaji Road, Near Sanjay Studio, Solan Himachal Pradesh - 173212 will shift to First Floor, Sanjay House, Auja, Saproon, Solan, Solan, Himachal Pradesh - 173211 from 26th December, 2024. The Customers are requested to contact the new office premises for

their needs. **REGIONAL BUSINESS HEAD**

SAHANA SYSTEM LIMITED

Registered Office: 1301, Maple Trade Centre, Nr. Surdhara Circle, Sal Hospital Road, Thaltej, Memnagar, Ahmedabad, Ahmadabad City, Gujarat, India, 380052 Contact Details: +91-9601676705;

Contact Person: Ms. Kshiti Nahar, Company Secretary & Compliance Office Email: cs@sahanasystem.com | Website: www.sahanasystem.com

NOTICE OF RECORD DATE

Pursuant to the Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and vide resolution dated 17th September, 2024 passed by the Board of Directors of the Company, Notice is hereby given that the Record date for determining names of the shareholders of the Company eligible to apply for the Rights Equity Shares in the Right Issue shall be 25th September, 2024.

Date: 17/09/2024 Place: Ahmedabad FOR SAHANA SYSTEM LIMITED HETAL PRATIKBHAI KAKADIYA

DIRECTOR DIN: 08381794

JINDAL POLY FILMS LIMITED Registered Office -19" K.M. Hapur Bulandshahr Road PO Gulaethi, Distt. Bulandshahr (UP).-245408 Corporate Office: Plot No. 87, Institutional Area

Sector-32, Gurugram, Haryana-122001 CIN: L17111UP1974PLC003979 Email id- cs_jpoly@jindalgroup.com; Website- www.jindalpoly.com Telephone No: 0124-6925100

Corrigendum REVISION OF BOOK CLOSURE PERIOD

In the notice to the members regarding the 50" Annual General Meeting of JINDAL POLY FILMS LIMITED which was published on 8" September, 2024, please note that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from Tuesday, 24" September 2024 to Monday, 30" September 2024 (both days inclusive) instead of the previously mentioned dates i.e., Monday, 23" September 2024 to Monday, 30* September 2024 (both days inclusive). The error is regretted. By order of the Board of Directors

Jindal Poly Films Limited Ashok Yadav

Place: Gurugram Company secretary Dated: 19" September 2024

SHRIRAM

SHRIRAM FINANCE LIMITED (Formerly known as SHRIRAM TRANSPORT FINANCE **COMPANY LIMITED)** PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and public at large that our Varanasi - I Branch located at D. No. 64/127-C, Fifth Floor, Anhant Complex, Nagar Nigam Road, Sigra, Varanasi, Uttar Pradesh - 221002 will shift to No: C33/2, Third Floor, Shree Prem Complex, Chandua Satti, Opposite Bharat Mata Temple, Varanasi 39 GTD, Varanasi, Uttar Pradesh - 221002 from 26th December, 2024.

The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FORM A

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

is incorporated / registered

Identification No. of corporate debtor

Address of the registered office and

principal office (if any) of corporate

Insolvency commencement date in

Name and registration number of the

Address and e-mail of the interim

Names of Insolvency Professionals

identified to act as Authorised

(Three names for each class)

resolution professional, as registered

respect of corporate debtor

resolution process

with the Board

resolution professional

resolution professional

KINDLE INFRAHEIGHTS PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS Name of corporate debtor

Kindle Infraheights Private Limited Date of incorporation of corporate debtor | 10/03/2011 Authority under which corporate debtor

Delhi, India, 110092

U701000L2011PTC215638 Corporate Identity No. / Limited Liability

C - 60, VIKAS MARG, PREET VIHAR, DELHI,

11/09/2024 (Copy of order received on 18/09/2024) Estimated date of closure of insolvency 10/03/2025

Name: Mr. Hemant Sethi Registration No. insolvency professional acting as interim IBBI/IPA-002/IP-N01107/2021-2022/13628

> Correspondence Address: C-1/2846 Sushant Lok-Phase 1, Gurugram (Haryana- 122002) Block No.IB, House No. S-C, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi - 110052 Email: hemantmisethi60@gmail.com Address: AAA House, 64, Okhla Estate, Phase III,

 Address and e-mail to be used for Behind Modi Mills, New Delhi-110020 correspondence with the interim Email: kiptcirp@gmail.com Last date for submission of claims 02/10/2024 Classes of creditors, if any, under clause Allottees (Homebuyers) are required to file their claim through https://pda.nesl.co.in/#/ and contact number (b) of sub-section (6A) of section 21. (M) 8178446956 (Authorized persons, NeSL) and IRP ascertained by the interim resolution

office 011-46664600 for any issues in filing the claim during office hours (10:00 A.M. -06:00 P.M.) 1. Rajender Pal Chandel (IBBI/1PA-002/1P-ND1220/2022-2023/14135) Representative of creditors in a class Amit Rustoe

(IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00451/2023 -2024/14355) Yudhishter Sharma (IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00217/2019 - 2020/12548)

(a) Relevant Forms and (a) https://ibbl.gov.in/en/home/downloads (b) Details of authorized representatives (b) https://pda.nesl.co.in/#/ The Creditors should submit their Claims at the website https://pda.nesl.co.in/#/ as mentioned against column 12.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi, Court II has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Kindle Infraheights Private Limited on 11/09/2024 (Copy of order received on 18/09/2024). The creditors of Kindle Infraheights Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 02/10/2024 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors (including the creditors in class) shall submit their claims with proof by electronic means only. The Financial Creditors should submit their Claim at the website https://pda.nesl.co.in/#/. If in case of any query relating to uploading the same on PDA NeSL, the contact details of the concerned person is (M) 8178446956 & 011-4666 4600. Other creditors can submit the claims with proof in person, by post or by electronic means Those Creditors, who intend to submit the Claim in physical mode, can submit at the address mentioned in entry No. 10.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of Authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as Authorised representative of the class allottes in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Interim Resolution Professional in the matter of

Kindle Infraheights Private Limited IBBI/IPA-002/IP-N01107/2021-2022/13628 AFA Valid Upto: 30.06.2025

Date: 20/09/2024 Place: Delhi

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"). INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. NOT FOR RELEASE. PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT



NTPC GREEN ENERGY LIMITED

NTPC Green Energy Limited (our "Company" or the "Issuer") was incorporated as "NTPC Green Energy Limited", a public limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated April 7, 2022, issued by the Registrar of Companies, Delhi and Haryana. For further details, see "History and Certain Corporate Matters" on page 223 of the draft red herring prospectus dated September 18, 2024 (the "DRHP" or the "Draft Red Herring Prospectus"). Registered Office: NTPC Bhawan, Core -7, SCOPE Complex 7 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003, Delhi, India

> Corporate Office: Renewable Building Netra Complex, E3 Main Market Road Ecotech II Udyog, I.A. Surajpur, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh, India, 201306 Contact Person: Manish Kumar, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91 11 2436 2577; E-mail: ngel@ntpc.co.in; Website: www.ngel.in; Corporate Identity Number: U40100DL2022GOI396282

OUR PROMOTERS: PRESIDENT OF INDIA, ACTING THROUGH THE MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA AND NTPC LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF NTPC GREEN ENERGY LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE

THIS ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [◆] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[◆] MILLION (CONSTITUTING UP TO [◆]% OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION") AND A RESERVATION OF UP TO [•] CONSTITUTING UP TO [•] OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE SHAREHOLDERS ("SHAREHOLDERS' RESERVATION PORTION"). OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO [●] % (EQUIVALENT OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) TO THE ISSUE PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING UNDER THE EMPLOYEE RESERVATION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE ISSUE LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION AND THE SHAREHOLDERS' RESERVATION PORTION IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS "NET ISSUE AND THE NET ISSUE WOULD CONSTITUTE [•] % AND [•] %, RESPECTIVELY, OF OUR POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹ 10 EACH. THE ISSUE PRICE IS [+] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND, THE EMPLOYEE DISCOUNT (IF ANY) AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [*] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAIL)

NEWSPAPER, HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF DELHI, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS. In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least three additional Working Days. In cases of force majeure, banking strike

or similar unforeseen circumstances, our Company, may in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a public notice and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank(s), as applicable.

The Issue is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR"), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Issue is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6(2)

of the SEBI ICDR Regulations, wherein at least 75% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs" and such portion, the "QIB Portion"), provided that our Company, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors and the basis of such allocation will be on a discretionary basis as decided by our Company in consultation with the BRLMs, in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "Anchor Investor Portion"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds; subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"), In the event of undersubscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion on a location on the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds. subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. If at least 75% of the Issue cannot be Allotted to QIBs, then the entire application money will be refunded forthwith. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation to Non-Institutional Bidders ("NIBs") of which (a) one-third portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹1.00 million; and (b) two-thirds portion shall be reserved for applicants with applicant w portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further not more than 10% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIB") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to the Eligible Employees Bidding in the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. Furthermore, up to [●] Equity Shares, aggregating up to ₹[●] million shall be made available for allocation on a proportionate basis only to Eligible Shareholders bidding in the Shareholders Reservation Portion, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) are mandatonity required to utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA"). process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID (defined hereinafter), as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs" or by the Sponsor Bank(s) under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA Process. For further details, see "Issue Procedure" beginning on page

539 of the DRHP. This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP with SEBI and Stock Exchanges on September 18, 2024.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com where the equity shares are proposed to be listed, the websites of the BRLMs, i.e., IDBI Capital Markets & Securities Limited at www.idbicapital.com, HDFC Bank Limited at www.hdfcbank.com, IIFL Securities Limited at www.iiflcap.com and Nuvama Wealth Management Limited at www.nuvama.com and the website of our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The members of public are requested to send a copy of their comments to SEBI and/or to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the BRLMs and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company at their respective addresses mentioned herein in relation to the Issue on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and Is accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 28 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus") has been filed with the RoC. National Capital Territory of Delhi and Haryana and must be made solely on the basis of such

Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP. The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the main board of the Stock Exchanges.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 223 of the DRHP.

The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital, capital structure of the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see "Capital Structure" on page 101 of the DRHP.

(1) IDBI capital

IDBI Capital Markets & Securities Limited 6th Floor, IDBI Tower WTC Complex, Cuffe Parade Mumbai - 400 005, Maharashtra, India Telephone: +91 22 4069 1953

E-mail: ngel.ipo@idbicapital.com Investor Grievance E-mail: redressal@idbicapital.com Website: www.idbicapital.com Contact Person: Indrafit Bhagat / Drashti Dugar SEBI Registration Number: INM000010866

Place: New Delhi

Date : September 19, 2024

HDFC BANK

We understand your world **HDFC Bank Limited**

INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 100,000.00 MILLION (THE "ISSUE").

Investment Banking Group, Unit No. 701, 702 and 702-A, 7th Floor, Tower 2 and 3, One International Centre, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 013 Maharashtra, India Tel: +91 22 3395 8233 E-mail: ntpcgreen.ipo@hdfcbank.com

Investor Grievance ID: investor.redressal@hdfcbank.com Website: www.hdfcbank.com Contact Person: Sanjay Chudasama SEBI Registration No.: INM000011252

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

IIFL SECURITIES **IIFL Securities Limited**

24th floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai - 400 013 Maharashtra, India Tel: +91 22 4646 4728

E-mail: ngel.ipo@iiflcap.com Investor grievance e-mail: ig.ib@iifl cap.com Website: www.iiflcap.com Contact person: Mansi Sampat/ Pawan Jain

SEBI registration no.: INM000010940

Inspire BKC, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra East

New Delhi

Mumbai - 400 051 Maharashtra, India Tel: +91 22 4009 4400 E-mail: ngelipo@nuvama.com Investor grievance e-mail: customerservice.mb@nuvama.com Website: www.nuvama.com Contact Person: Pari Vaya

SEBI Registration No.: INM000013004

nuvama

Nuvama Wealth Management Limited

801 - 804, Wing A, Building No 3,

KFINTECH

REGISTRAR TO THE ISSUE

KFin Technologies Limited

Selenium Tower B. Plot No.31-32 Gachibowli. Financial District Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad 500 032 Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222/ 1800 309 4001 E-mail: ntpcgreen.ipo@kfintech.com Investor grievance e-mail: einward.risk@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact person: M. Murali Krishna SEBI registration no: INR000000221

> For NTPC GREEN ENERGY LIMITED On behalf of the Board of Directors

Company Secretary and Compliance Officer

NTPC GREEN ENERGY LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated September 18, 2024 with SEBI and therafter with the Stock Exchanges. The DRHP shall be available on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, the websites of the

CONCEPT

BRLMs, i.e. IDBI Capital Markets & Securities Limited at www.idbicapital.com, HDFC Bank Limited at www.idbicapital.com, HDFC Bank Limited at www.idlicap.com and Nuvama Wealth Management Limited at www.nuvama.com and the website of our Company at www.ngel.in. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" on page 28 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act"), or any state law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities have a securities and sold only (i) within the United States only to persons

reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in "offshore transactions" as defined in, and in compliance with, Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. This announcement has been prepared for publication in India only and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus

financialexp.epapr.in

that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. No public offering or sale of securities in the United States is contemplated.

बिज्ञनेस रेमेडीज

निफ्टी में 25303 अंक के ऊपर तेजी देखी जा सकती है

दिनांक 20.09.2024 शेयर बाजार में ट्रेडिंग के संबंध में.... दिनांक 19.09.2024 पर निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस *@* 25489 पॉइंट पर :-

अगले कारोबार के लिए संभवित निफ्टी फ्यूचर 25373 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर २५५७० -25606 - 25676 अंक को छू सकता है निफ्टी फ्यूचर में प्रति यात्मक के लिए 25303 रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थिति...!!! दिनांक 19.09.2024 पर बैंक

@ 53177 पॉइंट पर :-अगले कारोबार के लिए संभवित बैंक निफ्टी फ्यूचर 52939 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर ५३२७२ -53373 - 53505 अंक को छू सकता है बैंक निफ्टी फ्यूचर में प्रतिक्रियात्मक के लिए 52808 रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थिति...!!!

अब नजर डालते हैं फ्यूचर्स स्टॉक

निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस

सम्बंधित मूवमेंट पर...!! ऐसीसी लि. (2452) :- अदानी ञ्रुप की इस अग्रणी कंपनी के शेयर की कीमत फिलहाल 2424 रुपये के आसपास है। 2404 रुपये के सख्त स्टॉपलॉस के साथ खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक २४७४ से २४८८ रुपये की विधारित लक्ष्य की संभावना है...!! 2500 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!

ओबेरोय रियालिटी (1855):-तकनीकी चार्ट के अनुसार 1828 रुपये के आसपास सकारात्मक ब्रेकआउट!! 1808 रुपये के सपोर्ट से खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक 1874 रुपये से 1880 रुपये तक के लक्ष्य भाव की संभावना है...!!



निखिल भट्ट रिसर्च एनालिस्ट, सेबी पंजीकृत



सन फार्मा (1849) :- फार्मा सेक्टर के शेयर में 1864 रुपये से 1880 रुपये तक की शॉर्ट टर्म तेजी का रुख दिखाएगा,1808 रुपये के अनुमानित सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!

ओर्बिन्दो फार्मा (1531):- फार्मा सेक्टर के शेयर में 1553 रुपये से 1570 रुपये तक की शॉर्ट टर्म तेजी का रुख दिखाएगा, 1508 रुपये के अनुमानित सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!

टाटा केमिकल्स (1027):- 10 रुपये का फेसवैल्यूका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग यह स्टॉक करीब 1003 स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकने कोमोडिटी केमिकल्स सेक्टर के इस स्टॉक में लगभग 1044 रुपये से 1050 रुपये तक

लक्ष्य की संभावना है...!!! इन्फोसिस लि. (1901) :-तकनीकी चार्ट के कंप्यूटर्स -सॉफ्टवेयर & कंसिल्टिंग सेक्टर के इस शेयर पर बिकवाली होने की संभावना के साथ 1888 रुपये से 1874 रुपये के आसपास लक्ष्य भाव की संभावना है। प्रतिक्रियात्मक के लिए 1940 का स्टॉपलॉस ध्यान में रखें...!!

कोटक बैंक (1874) :- इस शेयर को 1890 / 1909 रुपये के आसपास ओवरबोट स्थिति दर्ज करते हुए बिकवाली की संभावना के साथ इसकी कीमत 1860 रुपये से 1844 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!! 1919 रुपये के स्तर पर एक तेजी का माहोल..!!

एचडीएफरी बैंक (1712):-प्राइवेट बैंक सेक्टर का यह स्टॉक 1747 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1696 रुपये से 1680 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना

इप्का लेबोरेटरीज (1457) :-फार्मा सेक्टर के इस शेयर को करीब 1470 रुपये स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1440 रुपये से 1424 रूपये का टारगेट प्राइस रहने की संभावना है। ट्रेडिंग के लिए 1488 रुपये का सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!

आईसीआईसीआई बैंक (1295) :- इस शेयर को करीब 1313 / 1323 रुपये का स्टॉपलॉस साथ बेचकर की टारगेट प्राइस 1280 रुपये से लेकर 1273 रुपये तक रहने की संभावना है। 1330 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!!

लेखक सेबी पंजीकृत

अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइन्ट के मालिक हैं। विशेष नोट:- डिस्क्लेमर / नीति / शर्तें www.nikhilbhatt.in के अधीन...!!! नोटः शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशको को वित्तीय सलाहकार की सलाह

आज खुलेगा 'फीनिक्स ओवरसीज लिमिटेड' का आईपीओ

निवेशक २४ सितम्बर २०२४ तक कर सकेंगें कंपनी के आईपीओ में आवेदन



बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता आधारित 'फीनिक्स ओवरसीज लिमिटेड' विभिन्न प्रकार के पशु आहार एवं कृषि उपज के आयात और कृषि उपज व वस्तुओं के निर्यात जैसी कारोबारी गतिविधियों में संलग्न है। कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति, इनॉर्गेनिक ग्रोथ पहल पर निवेश और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी का आईपीओ आज खुलकर 24 सितम्बर को बंद होगा।

यह करती है कंपनी: फीनिक्स ओवरसीज लिमिटेड को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा थ्री स्टार एक्सपोर्ट हाउस के रूप में मान्यता प्राप्त है। 01 अक्टूबर, 2023 को भारत की और यह मान्यता 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए वैध है। कंपनी की कारोबारी गतिविधियों में कृषि उपज और वस्तुओं का

निर्यात, जूट बैग, पर्स, वॉलेट, बेल्ट का विनिर्माण/निर्यात और आलू कोल्ड स्टोर के साथ एक बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोरेज का संचालन शामिल है। गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ कंपनी लगातार वैश्विक बाजार के आयात निर्यात क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कंपनी पशु आहार और कृषि उपज और मक्का, तेल केक, मसाले जैसे सूखी लाल मिर्च, धनिया, जीरा, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार और दालें, सोयाबीन भोजन और चावल की भूसी रहित तेलयुक्त केक जैसे फ़ीड और अन्य कृषि उत्पादों व खाद्य पदार्थों के व्यापार एवं विपणन में लगी हुई है। कंपनी देश में बड़ी

वित्तीय प्रदर्शन : वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने कुल राजस्व 378.28 करोड़ रुपए एवं 3.90 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध

मात्रा में दाल, काली उड़द दाल और

अरहर दाल का आयात करने में

संलग्न है।

लाभ, वित्त वर्ष 2023 में 451.31 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 3.71 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने ५४९.१५ करोड़ रूपए का राजस्व एवं 5.38 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी के वित्तीय परिणामों से स्पष्ट है कि कंपनी का राजस्व एवं कर पश्चात शुद्ध लाभ वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन 0.98 फीसदी दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की असेद्स 131.62 करोड़ रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 45.20 करोड़ रुपए और कुल कर्ज 29.36 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। कंपनी का कर्ज एवं सरप्लस के मुकाबले कम है। इस आधार पर कह सकते हैं कि कंपनी पर कर्ज भार अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 11.17 रुपए का ईपीएस अर्जित किया है।

आईपीओ के संबंध में जानकारी: 'फीनिक्स ओवरसीज लिमिटेड' एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर आज ख़ुलकर 24 सितम्बर 2024 को बंद होगा। कंपनी द्वारा 10 रुपए फेसवैल्यू के 56,30,000 शेयर जारी कर पूंजी



IPO Date	September 20, 2024 to September 24, 2024					
Listing Date						
Face Value	₹10 per share					
Price Band	₹61 to ₹64 per share					
Lot Size	2000 Shares					
Total Issue Size	5,630,000 shares (aggregating up to ₹36.03 Cr)					
Fresh Issue	4,580,000 shares (aggregating up to ₹29.31 Cr)					
Offer for Sale	1,050,000 shares of ₹10 (aggregating up to ₹6.72 Cr)					
Issue Type	Book Built Issue IPO					
Listing At	NSE SME					
Share holding pre issue	14,766,018					
Share holding post issue	19,346,018					
Market Maker portion	196,000 shares Nikunj Stock Brokers					

जुटाई जाएगी। इनमें से कंपनी प्रवर्तकों द्वारा ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 10,50,000 शेयरों की बिक्री की जाएगी। आईपीओ का

प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी खांडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

नोट: यह लेख निवेश सलाह नहीं है।

जिंदल इंडिया उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। बीसी जिंदल समूह की कंपनी जिंदल इंडिया लि. अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 16 लाख टन करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। 'कलर कोटेड' और 'गैलवेनाइज्ड' इस्पात की चाढ़रें, पाइप और एलुमिनियम फॉइल बनाने वाली कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा

कि विस्तार के तहत कोटिंग वाले 'फ्लैट' उत्पादों, पाइप और क्रैश बैरियर के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। जिंदल इंडिया ने कहा, 'कंपनी ने छह लाख टन की रणनीतिक क्षमता विस्तार के लिए



अधिक के पूंजीगत व्यय की घोषणा की है। यह इसकी वर्तमान क्षमता 10 लाख टन प्रति वर्ष से 60 प्रतिशत अधिक है।'

1,500 करोड़ रुपये से

कंपनी ने कहा कि विस्तार कार्य वित्त वर्ष 2025-26 तक

पूरा होने का अनुमान है, जबकि उत्पादन चालू वित्त वर्ष के भीतर शुरू किया जाना है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि 'क्रैश बैरियर' जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उत्पादों के साथ देश के राजमार्ग नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने पर बढ़ता ध्यान एक प्रमुख क्षेत्र है जहां जिंदल इंडिया मूल्य सृजन कर रहा है।

NFO : कोटक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड

लेनी चाहिए।

यह एनएफओ 19 सितंबर 2024 को खुला और 3 अक्टूबर २०२४ को बंद होगा।

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई।कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ('KMAMC' / 'कोटक म्यूचुअल फंड') ने कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है, जो निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स को ट्रैक करती है। यह स्कीम पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 19 सितंबर 2024 को ख़ुला और 3 अक्टूबर 2024 को बंद होगी।

निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स में निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स की टॉप 50 मिडकैप कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें उनके मोमेंटम स्कोर के आधार पर सेलेक्ट किया गया है। मोमेंटम



इन्वेस्टिंग उन शेयरों पर फोकस करता है, जिन्होंने पिछले 6 और 12 महीनों में पॉजिटिव प्राइस ट्रेंड दिखाया है। यह मजबूत ग्रोथ वाली कंपनियों में निवेश करने का एक सिस्टमैटिक तरीका प्रदान करता है। कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड निवेशकों को संभावित हाई-ग्रोथ वाले मिडकैप सेगमेंट को टारगेट करने का अवसर प्रदान करता है, जबिक हालिया पॉजिटिव प्रदर्शन का ट्रेंड दिखाने वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है। कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने कहा कि कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50

इंडेक्स फंड का लॉन्च एक्टिव और पैसिव प्रोडक्ट की पेशकश करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो रिस्क लेने और निवेश के लक्ष्य की कैटेगरी के आधार पर अलग अलग निवेशकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। यह इंडेक्स फंड निवेशकों को एक नियम-आधारित इंडेक्स में निवेश करने का मौका प्रदान करता है, जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी के साथ चुनी गई मिडकैप कंपनियों में निवेश करता है। मिडकैप प्लस मोमेंटम का संयोजन निवेशकों को लगातार मॉनिटरिंग और निवेश को एडजस्ट करने की परेशानी के बिना संभावित हाई ग्रोथ वाली मिडकैप कंपनियों में निवेश करने का अवसर प्रदान कर

सकता है। कोटक महिंद्रा एएमसी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर, देवेंद्र सिंघल ने कहा कि निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने ऐतिहासिक रूप से अन्य मिडकैप इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। मोमेंटम वाले शेयरों पर फोकस करके, यह फंड निवेशकों को पैसिव और अनुशासित तरीके से प्राइस ट्रेंड से संभावित रूप से लाभ उठाने का एक तरीका प्रदान करता है। यह रणनीति उन निवेशकों को निवेश का अवसर देती है, जो ग्रोथ की तलाश में हैं और एक सिस्टमैटिक, नियम-आधारित अप्रोच बनाए रखते हुए हाई-ग्रोथ मिडकैप सेगमेंट तक पहुंचने के लिए कुछ जोखिम को संभालने में सक्षम हैं। यह स्कीम पब्लिक सब्स्रिक्रप्शन के लिए 19 सितंबर 2024 को खुल रही है और 3 अक्टूबर 2024 को बंद होगी। इसमें निवेशक कम से कम 100 रुपये और उसके बाद कितनी भी राशि का निवेश कर सकते हैं। पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी।

मोतीसंस ज्वैलर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: २७०, २७१, २७२ एवं ७६, जौहरी बाजार, जयपुर - ३०२००३ • **कॉपोरेट कार्यालय:** एसबी-११०, मोतीसंस टॉवर, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर - ३०२०१५ • एफ-३३, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर - ३०२०२१ फ़ोन नंबर: +91-0141-4160000 | ईमेल: motisons@gmail.com

वेबसाइट: www.motisonsjewellers.com | सीआईएन: L36911RJ2011PLC035122

डाक मतपत्र की सूचना [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित]

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और धारा ११० और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 और नियम 22 के साथ पढ़ें, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ ("सेबी सूचीकरण विनियम") के विनियम ४४, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आम बैठकों पर जारी सचिवीय मानक ("एसएस-2") और कॉपोंरिट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए) द्वारा जारी छूट और स्पष्टीकरण सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, २२/२०२० दिनांक १५ जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021 दिनांक २३ जून, २०२१, २०/२०२१ दिनांक ८ दिसंबर, २०२१, ३/२०२२ दिनांक ५ मई, २०२२, ११/२०२२ दिनांक २८ दिसंबर, २०२२ और ०९/२०२३ दिनांक २५ सितंबर, २०२३, कॉपेरिट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ("एमसीए परिपत्र") और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, 19 सितंबर, 2024 के पोस्टल बैलट के नोटिस में निर्धारित संकल्प(ओं) को कंपनी के सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से केवल पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है

कंपनी ने 19 सितंबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सदस्यों को उनके ई-मेल पते पर व्याख्यात्मक विवरण के साथ पोस्टल बैलट की सूचना भेजने का काम पूरा कर लिया है, जो डिपॉनिटरी प्रतिभागियों या रनिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एनेंट (आरटीए) यानी लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत है और जिनका नाम कट ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दिखाई देता है। पोस्टल बैलट की उक्त सूचना बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट www.motisonsjewellers.com पर और लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है। जो व्यक्ति कट ऑफ तारीख तक सदस्य नहीं है, उसे इस पोस्टल बैलट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना

निदेशक मंडल (बोर्ड) ने श्री पंकज कुमार गुप्ता, मेसर्स कुमार जी एंड कंपनी के मालिक, (सीओपी संख्या- ७५७९), कार्यरत कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियक्त किया है।

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएँ ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग के लिए आवश्यक निर्देश 19 सितंबर, 2024 के नोटिस में दिए गए हैं।

जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके मामले में यह कहा जा सकता है कि एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में पोस्टल बैलट नोटिस भेजेगी और पोस्टल बैलट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस लिफाफे के साथ पोस्टल बैलट नोटिस की हार्ड कॉपी शेयरधारकों को इस पोस्टल बैलट के लिए नहीं भेजी जाएगी। तदनुसार, सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल दरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगा। इसलिए, जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता पंजीकृत करवा लें या आरटीए यानी लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ईमेल आईडी rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर या कंपनी से ईमेल आईडी complianceofficer@motisons.com पर संपर्क करें।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की अवधि शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और शनिवार, १९ अक्टूबर, २०२४ को शाम ०५:०० बजे समाप्त होगी। इसके बाद ई-वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि के बाद सदस्य द्वारा किया गया कोई भी मतदान वैध नहीं होगा और उक्त तिथि के बाद इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का मतदान अधिकार कटऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनमति नहीं दी जाएगी।

एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट दे देता है, तो उसे बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति

रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करते समय नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढें।

इसके अलावा, कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्हें डाक मतपत्र नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे कंपनी में आवेदन कर सकते हैं और उसकी एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

कोई भी सदस्य, जिसके पास कर-ऑफ तिथि तक शेयर हैं और जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच की तिथि के बाद यह नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वह नोटिस में बताए गए निर्देशों का पालन करके या कंपनी के आरटीए को rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही NSDL या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ पंजीकृत है, तो वह नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

यदि आपके पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप https://instavote.linkintime.co.in पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं। या कंपनी से टेलीफोन नंबर: +91-0141-4160000, ई-मेलcomplianceofficer@motisons.com पर संपर्क करें। संपर्क व्यक्ति: भावेश सुरोलिया, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी।

डाक मतपत्र द्वारा मतदान के परिणाम अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वैधानिक समय सीमा के भीतर घोषित किए जाएंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी जांचकर्ता की

रिपोर्ट के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।

दिनांक: १९ सितम्बर २०२४

स्थान: जयपुर

निदेशक मंडल के आदेश से

मोतीसंस ज्वैलर्स लिमिटेड के लिए भावेश सुरोलिया कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

सदस्यता संख्या: A64329/

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्राहकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए निवा बूपा से की साझेदारी

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। देश के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी) ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा उत्पाद मुहैया कराने के लिए आज निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (निवा बूपा) के साथ साझेदारी की घोषणा की है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक (जो की एयू एसएफबी के साथ विलय हो गया है) के साथ निवा बूपा के मौजूदा संबंधों को आगे बढ़ाते हुए यह साझेदारी एक नया व्यावसायिक प्रस्ताव पेश करती है, जो बैंक की ओर से ग्राहकों को पेश किए जाने वाले ऑफरों को और बेहतर बनाता है। इस साझेदारी के जरिये एयू एसएफबी के नए और मौजूदा ग्राहकों (इनमें फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की पूर्व शाखाओं के ग्राहक भी शामिल हैं) को अब भारत में 2,414 टचपॉइंट पर निवा बूपा के खुदरा और समूह स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की व्यापक रेंज तक पहुंच का लाभ मिलेगा। इन उत्पादों में स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना और गंभीर बीमारी से

Data based on previous day closing





एसएफबी के लिए इस साझेदारी का मकसद प्रौद्योगिकी और सेवा मॉड्यूल के जरिये उत्पादों को किफायती और पारदर्शी मूल्य प्रस्ताव बनाने में सक्षम करना है।22 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद निवा बूपा की २१० शाखाओं के नेटवर्क और देशभर में एयू एसएफबी की वितरण पहुंच का लाभ उठाते हुए दोनों संस्थाएं व्यक्ति गत और कस्टमर फर्स्ट स्वास्थ्य बीमा सॉल्यूशंस प्रदान करने में सहयोग करेंगी। इस साझेदारी पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक और डिप्टी सीईओ उत्तम टिबरेवाल ने सबसे पहले हैं। ग्राहकों को लचीलेपन के साथ विकल्प मुहैया कराना और उनके

Source: VAISHALI KALA

INDEX		Above / Below	Conf.	T1	Normal Target		On Trending times.		
					T2	T3	T4	T5	T6
NIFTY Spot	For BUY Above	25,460	25,487	25,509	25,531	25,562	25,581	25,646	25,718
	For SELL Below	25,372	25,345	25,323	25,301	25,269	25,250	25,185	25,114
Bk.Nifty Spot	For BUY Above	53,147	53,214	53,269	53,323	53,401	53,448	53,609	53,785
	For SELL Below	52,929	52,862	52,807	52,752	52,674	52,627	52,466	52,290



संबंधित बीमा योजनाएं शामिल हैं। एयू कहा, 'एयू एसएफबी में ग्राहक हमारे लिए अनुरूप समाधान पेश कर उन्हें

को पूरा करने के साथ उन्हें उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी कर हम एम्बेडेड और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा समाधानों के जरिये अपने ब्रांच बैंकिंग प्रस्ताव को मजबूत करेंगे। यह हमारे मूल्यवान ग्राहकों को बेहतर समाधान मुहैया कराने में मदद करेगा। एयू एसएफबी में, हम अपने ग्राहकों के लिए एक एकीकृत स्वास्थ्य इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं तािक वे विभिन्न लाभ और सेवाओं के साथ तेजी से क्लेम प्राप्त कर सकें।' निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन ने कहा, '2047 तक सभी को बीमा मुहैया कराने के सपने को साकार करने के लिए हमें वितरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम देश के हर व्यक्ति तक पहुंचें। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हमारी साझेदारी हमें अपनी वितरण पहुंच का विस्तार करने और उनके ग्राहक आधार को व्यापक स्वास्थ्य बीमा

समाधान प्रदान करने में मदद करेगी।'

सशक्त बनाने के प्रति हमारी अदूट

प्रतिबद्धता है। ये उनकी व्यक्तिगत जरूरतों

DEBOCK

डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L52190RJ2008PLC027160 पंजीकृत कार्यालयः 51, लोहिया कॉलोनी, 200 फुट बाई-पास, वैशाली नगर, जयपुर-302021, टेलीफोन: +91-7999999975 ई-मेल: cs@debockgroup.com, वेबसाइट: www.debockgroup.com

16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में सुधार

यह 16वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित 06 सितंबर 2024 के ईमेल की निरंतरता में है। यह सुधार डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा कंपनी के सदस्यों की निर्धारित 16वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') आयोजित करने के लिए 5 सितंबर 2024 (6 सितंबर, 2024 को प्रसारित) के नोटिस की निरंतरता में 30 सितंबर 2024, सोमवार को दोपहर 12.00 बजे 51, लोहिया कॉलोनी, 200 फीट बाईपास, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021 स्थित कंपनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित करने के लिए जारी किया जा रहा है।

इसे कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित आइटम नंबर 3 को हटाकर और इसे आइटम नंबर 3 से बदलकर 16वीं एजीएम आयोजित करने के नोटिस और व्याख्यात्मक वक्तव्य में बदलाव के संबंध में जारी किया जा रहा है। इस सुधार को 5 सितंबर, 2024 के एजीएम नोटिस और 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाना है, जो कंपनी की वेबसाइट www.debockgroup.com, सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध है। एजीएम का नोटिस कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों को भेज दिया गया था। इसके तहत, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों को पढें।

मेसर्स एमएपीएसएस एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, (एफआरएन: 012796सी) ने कंपनी के लिए ऑडिटर के रूप में बने रहने में असमर्थता व्यक्त की और 10 सितंबर, 2019 को इस्तीफा दे दिया। प्रस्तावित नए ऑडिटर की नियुक्ति को निदेशक मंडल ने 13 सितंबर, 2024 को हुई बैठक में मंजूरी दे दी थी, जब एजीएम की सचना पहले ही सदस्यों को भेज दी गई थी। नतीजतन, कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में कंपनी मेसर्स जैन चौधरी एंड कंपनी की नियुक्ति के लिए नोटिस में एक सुधार जारी कर रही है।

सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से प्रस्ताव की पृष्ठभूमि और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ-साथ कंपनी के निदेशक मंडल के रुख को स्पष्ट करने के लिए 16वीं एजीएम की सूचना के साथ संलग्न अधिनियम की धारा 102 के अनुसार वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें और रिमोट ई-वोटिंग या 16वीं एजीएम में वोटिंग

> निदेशक मंडल के लिये और उनकी ओर से डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व नाम डिबॉक सेल्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड)

मुकेश मनवीर सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

के जरिए अपना वोट डालें।

दिनांकः 17 सितम्बर, 2024

स्थानः जयपुर

DIN: 01765408